



Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679

Corp. Office. : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022

Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713

Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000

PML/CS/BSE/2020/309 Date: September 04, 2020

Corporate Relations Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

SUB: <u>PUBLICATION OF NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK</u>
<u>CLOSURE</u>

Ref: <u>Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u>
<u>Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of the Newspapers (The Financial Express and Jansatta) in which the notice of 36th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure have been published by the Company, pursuant to Regulation 42 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Section 91, Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 and 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The details of the same as per Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read over with SEBI Circular CIR/CFD/CMD/4/2015 Dated September 09, 2015 are as under:

- (a) Date of Notice: Friday, September 04, 2020 (Published in the Newspapers "Financial Express" and "Jansatta")
- **(b)** Brief details: As per copy of publication of Notice of 36th Annual General Meeting, E Voting and Book Closure attached.

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY CUM COMPLIANCE OFFICER
FCS-5046

Encl: Copy of the Publications

FINANCIAL EXPRESS

LCC INFOTECH LIMITED CIN-L72200WB1985PLC073196

Regd. Office: P-16, C.I.T.Road, Kolkata-700014 Corporate Office: 2/5A Sarat Bose Road, Kolkata-700020 Ph- 033-40033636/37, Fax:- 033-24852932 Website: lccinfotech.co.in, E-Mail: corporate@lccinfotech.in

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Confer

ence (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Wednesday, 30th th September, 2020 at 11 AM, Indian Standard Time ('IST' In accordance with the General Circular Nos, 20/2020 dated 5th May, 2020, 14/2020 dated 8th April, 2020 and 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circulars), which allow the Companies to hold AGM through VC/OAVM, the 100th AGM of the Members of the Company is being held through VC/OAVM. In term of the said Circulars, the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial

year 2019-20 will be sent in electronic mode to only to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company /the Registrar and Share Transfer Agents of the Company (RTA) or the Depository Participants, as the case may be. However Members including Members who have not registered their E-mail addresses with Company/Depository Participant(s), can download the AGM Notice and Annual Report from the Company's website i.e., www.lccinfotech.in or the Stock Exchange's websites viz.. BSE Limited - www.bseindia.com. The Member whose E-mail address is not registered with the RTA / Depository Participant(s), are requested to write a

skcdilip@gmail.com for registration of E-mail address and to receive AGM Notice, Annual Report and e-voting user ID and password by E-mail. For detailed procedure for registering the E-mail address and for receipt of e-voting user ID and password and the procedure of electronic voting, please refer Notice of the AGM as well as in the E-mail sent to the Members by NSDL The Members are requested to refer the AGM notice, for instructions for attending the AGM through VC / OAVM and viewing WEBCAST of AGM. E-Voting

The Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Only those Members who are holding shares either in physical form or dematerialised form, as on September 23rd 2020 (cut-off date), can cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of CDSL at www.evotingindia.com. Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report and before the cut off date may obtain the USER ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or skcdilip@gmail.com The remote e-voting period will commence Sunday, 27th September, 2020 from 9.00 A.M (IST) and end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting at 5.00 pm on Tuesday 29th September, 2020. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM however, they shall not be eligible to vote at the meeting. The Company will make necessary arrangements for e-voting during

For any query / clarification / grievance connected with VC Meeting, remote e-voting, memberscan write E-mail a corporate@lccinfotech.co.in, or helpdesk.evoting@cdslindia.com and skcdilip@gmail.com. by clearly mentioning their Folio No./DP ID and client ID.

shareholders who would be entitled for payment of dividend for the year ended March 31, 2020, if declared, at the 34th AGM

Book Closure Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from 24th September to 30th September, 2020 (both day inclusive) to determine the eligible

Place:- Kolkata Date:- 04, September 2020 For LCC INFOTECH LIMITED SIDHARTH LAKHOTIA Director (DIN:00057511)



Paul Merchants Ltd. (An ISO 9001:2015 Certified Co.) (CIN: L74900DL1984PLC01867 CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-504170 REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-487020

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Paul Merchants Limited will be held on Tuesday, the 29" day of September, 2020 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visua Means ("OAVM"), to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM on 02-09-2020 by permitted mode. This Annual General Meeting has been convened through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with General Circular 14/2020 dated 08-04-2020, General Circular 17/2020 dated 13-04-2020, General Circular 20/2020 dated 05-05-2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/75 dated 12" May, 2020 issued by SEBI. The special business proposed to be transacted at the ensuing AGM as set out in the Notice, has been considered as unavoidable by the Board of Directors of the Company

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the members the facility for voting by electronic means to enable them to cast their votes electronically through remote e-voting and also to exercise their right to vote at the 36" AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services provided by the Central Depository Services Limited (CDSL).

The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on Saturday at 09:00 a.m. (IST) on September 26, 2020 and will end or Monday at 05:00 p.m. (IST) on September 28, 2020. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 - The voting rights of the members (for voting through remote e-voting or at AGM through evoting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 22" September, 2020 ("Cut-Off Date"). A Member as on the Cut-Off Date (close of business hours) shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or to vote at the AGM and for attending the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company M/s Alankit Assignments Ltd, 1E/13, Jhandewalan Extn. New Delhi-110055 (INDIA) Ph No.: 011-42541959 or CDSL. However, if the said shareholder is already registered with CDSL for e-voting, then his existing user id and password can be used for casting the vote. If he has forgotten the password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on
- Facility of e-voting during AGM will also be available and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote their assent or dissent during AGM.
- A Member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote evoting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The Annual Report of the Company for financial year 2019-20 containing inter alia the Notice of the 36" AGM has been displayed and can be downloaded from the website of the Company under weblink http://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2020/09/Annual-Report-2020.pdf The Notice of the 36" AGM has also been displayed on the website of CDSL evoting at https://www.evotingindia.com/ and on the website of BSE Ltd at http://www.bseindia.com./

Mr. Kanwaljit Singh Thanewal, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 5901 and CP No. 5870), SCO 64-65. Sector 17 A, Chandigarh has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and evoting during AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and e-voting at AGM shall be declared on Wednesday, September 30, 2020 at 2.00 PM at Corporate Office of the Company at SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh - 160022. The result declared along with the consolidated Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company (www.paulmerchants.net) and on the website of CDSL (https://www.evotingindia.com) immediately after the result is declared and shall simultaneously be forwarded to BSE Ltd., where the Company's shares are listed. The result of the voting, with details of the number of votes cast for and against the Resolution, invalid votes and whether the Resolution has been carried or not shall also be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office at New Delhi and its Corporate Office at Chandigarh.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. You may also contact Mr. Hardam Singh, Company Secretary cum Compliance Officer of the Company at investor redressal@paulmerchants.net or at 0172-5041760 or Fax 0172-5041713 or at PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh - 160022.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15-09-2020 to 21-09-2020 (both days inclusive) for the purpose of 36" Annual General Meeting of the

Company.

Dated: September 3, 2020 Place: Chandigarh

HARDAM SINGH

hathw@y

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED Regd. Office: 'Rahejas', 4th Floor, Corner of Main Avenue &

V.P. Road, Santacruz (West), Mumbai – 400054 Tel: 91-22-26001306 Fax: 91-22-26001307 CIN: L64204MH1959PLC011421 Website: www.hathway.com; E-mail: info@hathway.net

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

60th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The Sixtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held

through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday September 25, 2020 at 12:00 p.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made hereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17 2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM at https://jiomeet.jio.com/hathwayagm and https://emeetings.kfintech.com. Members participating through the VC OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 of the Company, have been sent on Thursday, September 3, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.hathway.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited ("KFinTech") at https:// evoting.karvy.com. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically

for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM.

Members seeking to inspect such documents can send an email to info@hathway.net.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("evoting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of KFinTech on the dates mentioned herein below ("**remote e-voting**"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions including details of user Id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have

not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company www.hathway.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFinTech at https:/ /evoting.karvy.com.

The remote e-voting facility will be available during the following voting

Commencement of 9:00 a.m. on Tuesday, September 22, 2020 remote e-voting End of remote e-voting 5:00 p.m. on Thursday, September 24, 2020 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time

expiry of the aforesaid period. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, September 18, 2020 only shall be entitled to

and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon

avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll. Manner of registering / updating email addresses for obtaining Login

- Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical Form and who have not registered their e-mail addresses may get their e-mail addresses registered with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent, by clicking the link: https://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html on the website www.linkintime.co.in under the Investor Services tab by choosing the E mail / Bank Registration heading and following the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e mail id and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format. (upto 1 MB). In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts. After due verification, the Company / KFinTech will forward their login
- credentials to their registered email address. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User Id and password in the manner as provided in the Notice
- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, ir

the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https: evoting.karvy.com.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any:

KFin Technologies Private Limited

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, India Phone No.: +91 40 6716 1582 Toll-free No.: 1800-3454-001

Place: Mumbai Dated: September 4, 2020

Ajay Singh

Head Corporate Legal, Company Secretary & Chief Compliance officer (FCS 5189)

THE INDIAN WOOD PRODUCTS CO. LTD.

CIN L20101WB1919PLC003557 Regd Off: 9 Brabourne Road, 7th Floor, Kolkata- 700 001 Website: www.iwpkatha.com; Email id: iwpho@iwpkatha.co.in Tel: 8232023820, Fax No.: 033 22426799

NOTICE OF THE 100TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 100th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 25th September, 2020 at 3.15 P.M., Indian Standard Time ('IST'), through Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') without physical presence of

In this regard, Members are informed that the Company has completed electronic dispatch of the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20, inter alia, comprising of Directors' Report, Auditors Report, Standalone and Consolidated Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st March, 2020 along with the Notice of the 100th Annual General Meeting, on 3rd September, 2020, through an email to the members whose email addresses are registered with the Company or Depositories Participants, as the case may be, and whose names appear as in the register of members/beneficial owners as on 14th August, 2020.

The businesses as contained in the Notice of AGM shall be transacted through remote e-voting. M/s. National Securities Depository Limited (NSDL) has been engaged to provide the remote e-voting platform to the shareholders of the Company. The remote e-voting shall begin on 22nd September 2020 at 9.00 AM and ends on 24th September 2020 at 5.00 PM., thereafter remote e-voting will be disabled. Once a vote is cast by the Members, he shall not be allowed to change it subsequently. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of 18th September 2020, shall be entitled to avail the facilities of remote-e voting as well as e-voting in the AGM. Person, who become members of the Company subsequently to the dispatch of the Notice/Email and hold the shares as on the cut-off date of 18th September, 20120 are requested to send the written/Email communication to the Company at iwpho@iwpkatha.co.in, by mentioning their Folio No./DP ID and client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting.

The Notice is available on the website of the Company www.iwpkatha.com and NSDL: https://www.evoting.nsdl.com.

Any grievance relating to the e-voting should be addressed to Mr. Anup Gupta, Company Secretary, The Indian Wood Products Co. Ltd., 9 Brabourne Road, 7th Floor, Kolkata-700001, Telephone No.: 8232023820, Email id: iwpho@iwpkatha.co.in. Further in case you have any queries or issue regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@nsdlindia.com.

By order of the Board For The Indian Wood Products Co. Ltd Place: Kolkata Anup Gupta Dated: 03.09.2020 Company Secretary

HBL POWER SYSTEMS LIMITED

CIN:L40109TG1986PLC006745 Regd. Off: 8-2-601, Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034

NOTICE OF 34[™] ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of

the Members of HBL Power Systems Limited will be held on Thursday. the September 24, 2020 at 4.00 p.m. to via two-way video conferencing (VC facility) / other audio-visual means (OAVM) only transact the business as set out in the notice separately sent by e-mail only to the members whose names appear in the register of members / list of beneficial owners as on Friday, August, 28, 2020.

In accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA vide Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No.20/2020 dated May 05, 2020 read with Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, dated May 12, 2020, the Company has sent the notice of 34" Annual General Meeting with link for the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 on Tuesday, September 01, 2020 through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Registrars and Transfer Agent (RTA) i.e KFin Technologies Private Limited / Depositories. The requirement of sending physical copies of the annual report has been dispensed with vide MCA and

The e-copy of the notice of AGM along with other reports for the financial year 2019-20 is available of the website of the Company a https://www.hbl.in/investors-continue.php and may also be accessed from relevant section of the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Remote e-voting:

In terms of the provisions of section 108 of the Act, read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (hereinafter called 'the Rules' for the purpose of this section of the Notice) and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility of remote e-voting facility to exercise votes on the items of business given in the notice through electronic voting

The detailed instruction for remote e-voting is given in the notice of AGM Members are requested to note the following:

- The remote e-voting facility would be available during Monday September 21, 2020 (9.00 a.m.) and Wednesday, September 23, 2020 (5.00 p.m.). Remote e-voting beyond the said date and time shall not be allowed and the remote e-voting facility shall be disabled.
- The voting rights of the members shall be in proportion of their share of the paid up equity share capital of the Company as on Thursday September 17, 2020 (cut-off date). The facility of remote e-voting shall also be made available during the meeting and the members attending the meeting, who have not already cast their vote by the remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. A person whose name is recorded in the register of members/register of beneficial owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before or during the meeting.
- A person who becomes a member of the Company after the despatch of the notice of AGM and holds shares on the cut-off date fixed i.e. Thursday, September 17, 2020 may obtain login ID and password for remote e-voting by sending a request to einward.ris@kfintech.com or may contact the toll free number provided by KFintech on 1800 345 400 A person in receipt of the Notice but not a member as of cut-off date i.e. Thursday, September 17, 2020 holds such notice only for the purpose

In accordance with the above referred circulars of MCA and SEBI, no physical copies of the notice of the meeting and other related reports shall be sent and therefor, members are requested to register their mail addresses on or before 1700 hours (5:00 PM) on Thursday, September 17, 2020 to receive the notice of AGM and other related reports and also to receive the login ID and password for e-voting as per instructions below:

In case of electronic shareholding: Register/updated the email IDs with their respective depositories; and

In case of physical shareholding: write to RTA i.e. KFin Technologies Private Limited, (Unit: HBL Power Systems Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad-500 032 or email to einward.ris@kfintech.com. For your convenience format of request letter is available on Company's website https://www.hbl.in/reports/email_regiform2020.pdf.

NOTICE OF BOOK CLOSURE

Place: Hyderabad

Date: 03/09/2020

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 and rules made thereunder the Register of Members, Register of Beneficial Owner and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 18, 2020 to Thursday, September 24, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend. The dividend, if any, declared would be paid to those members whose names appear on the Register of Members in case of electronic holding and for the members holding in physical mode as on Thursday, September 18, 2020. You are further informed that SEBI in its above referred circular relaxed

payment of dividend through warrants / cheques / demand drafts till the normalization of postal services. Therefore, in view of continuing COVID-19 pandemic and prevailing uncertainties, to receive dividend, if declared, and a copy of annual report electronically, members are requested to update link / map the bank account details with the your demat account in case of electronic shareholding and in case of physical hare holding please write to RTA i.e. KFin Technologies Private Limited, (Unit: HBL Power Systems Limited) or send an email to einward.ris@kfintech.com, providing the details as per the format made available on Company's website https://www.hbl.in/reports/bankaccupdateform2020.pdf.

For HBL Power Systems Limited MVSS Kumar

Company Secretary

Read. Off. - 205A, Hari Chambers, S. B. Marg, Fort, Mumbai-400001 (CIN - L65920MH1994PLC082992) NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of Board o Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 12th September, 2020 at the registered office of the Company at 11:00 a.m inter alia, to consider and approve unaudited financial results of the Company for the Quarte The said notice may be accessed on the Company website at https://www.wallfort.com and may also be accessed on the Stock Exchange website a http://www.bseindia.com.

> Wallfort Financial Services Limited Deepak Lahot Wholetime Director & CFO (DIN -01765511

For and on behalf of

Date: 4th September, 2020 RCC CEMENTS LIMITED

CIN-L26942DL1991PLC043776 egd, Office: 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Email id-rcccementslimited@gmail.com Tel.: 91-11-43571044, Fax: 91-11-43571047 NOTICE OF BOARD MEETING

In pursuance to Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Friday, 11th September, 2020, at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider, approve and adopt Un-audited Financial Results for the guarter ended June The said information is also available on the

Company's website at www.rcccements.com and at BSE's website .e. www.bseindia.com. For RCC Cements Limited

Amanpreet Kaur Date: 04.09.2020 Company Secretary Place: New Delhi Membership No.: A57143

INTERWORLD DIGITAL LIMITED CIN-L72900DL1995PLC067808 Regd. Office: 701, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Email Id - interworlddigital.in@gmail.com Tel.: 011-43571044-45; Fax No.: 011-43571047

NOTICE OF BOARD MEETING

n pursuance to Regulation 33 read with egulation 47 of SEBI (LODR) Regulations 2015. Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Friday,11th September, 2020, at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider, approve and adopt Un-Audited Financial tesults for the quarter ended June 30, 2020. he said information is also available on the Company's website a www.interworlddigital.in and at BSE'swebsite i.e. www.bseindia.com.

By Order of Board For Interworld Digital Limited Shivangi Agarwal

Date: 04.09.2020 Company Secretary Place: New Delhi Membership No.: A61069 **POWER MECH** PROJECTS LIMITED


Reg Off: Plot No. 77, Jubilee Enclave, Opposite Hitex, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Telangana, Ph: 040 30444418, Fax: 040 30444400 E mail: cs@powermech.net, Website: www.powermechprojects.in CIN: L74140TG1999PLC032156 NOTICE OF THE BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the SEBI Listing Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 15th, 2020, at the registered office of the Company inter alia, to consider and approve the un audited financial results (standalone and consolidated) for the quarter ended 30.06.2020.

The Trading Window for all designated persons as under "Power Mech Insider Trading Policy" has already been closed from 01.07.2020 and will remain closed till conclusion of 48 hours after the declaration of results for the first quarter ended

30.06.2020. For Power Mech Projects Limited S Kishore Babu

Chairman & **Managing Director** Date: 03-09-2020 Place: Hyderabad DIN: 00971313



UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED

Regd. Office: "Raheja Towers", Delta Wing - Unit 705, 177 Anna Salai, Chennai - 600 002 CIN: L31900TN1985PLC012343 Tel.No.044-42208111 Fax.No.044-28605020 E-mail: ufsl.ho@ucal.com Website: www.ucalfuel.com

NOTICE

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 14" September 2020 at 27 ABM Avenue, Raja Annamalaipuram, Chennai 600 028 to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30.06.2020.

REKHA RAGHUNATHAN Director and Company Secretary

for UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED

Place : Chennai Date: 03.09.2020

FINKURVE FINANCIAL **SERVICES LIMITED** CIN: L65990MH1984PLC032403 Regd. Office: 3rd Floor, Bullion House, 115 Tambakatta Lane, Zaveri Bazar, Mumbai – 400 003. Tel. No.: 022-61420022;

Email id: finkurvefinancial@gmail.com; Website: www.arvog.com NOTICE Pursuant to Regulation 29(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)

(LODR) Regulation, 2015 Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th September, 2020 inter alia, to consider and approve the Un-Audited Consolidated and Standalone Financial results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2020.

The above intimation is available on Company's website at www.arvog.com and the website of stock exchange(s) at www.bseindia.com. For Finkurve Financial

> Services Limited Sunny Parekh **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Mumbai Date: 03rd September, 2020

Chandigarh

financialexp.epap.in

Place: Hyderabad

Date: 02-09-2020

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER, FCS 5046 KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LTD.

For PAUL MERCHANTS LTD

Regd. Office: Plot No.38 (part) to 41, Hardware Park, TSIIC Layout, Survey No.1/1, Kancha Imarat, Raviryal Village, Maheswaram Mandal, Ranga Reddy Dist, Hyderabad - 501 510.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020.

(AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY CIN:L30007TG1991PLC013211)

SI.		STANDALONE				CONSOLIDATED			
No.		QUARTER ENDED			YEAR ENDED	QUARTER ENDED			YEAR ENDED
IVO.		30-6-2020 Unaudited	31-3-2020 Audited	30-6-2019 Unaudited	31-3-2020 Audited	30-6-2020 Unaudited	31-3-2020 Audited	30-6-2019 Unaudited	31-3-2020 Audited
1.	Total Income from operations	53.54	64.59	945.40	1,462.04	53.54	64.59	971.49	1,488.12
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(172.83)	(328.96)	(95.98)	802.68	(192.16)	(782.01)	(92.56)	333.07
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	(172.83)	(328.96)	(88.59)	802.68	(192.16)	(782.01)	(85.16)	340,46
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(187.96)	(360.38)	(76.88)	806.07	(207.30)	(813.44)	(73.45)	343.85
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(187.96)	(360.65)	(76.88)	805.80	(207.23)	(815.05)	(73.45)	342.23
6.	Equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	1,249.97	1,249.97	1,249.97	1,249.97	1,249.97	1,249.97	1,249.97	1,249.97
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited Balance Sheet of the previous year	F	1200	22 24 2	5,712.50	(<u></u>	7200		4,647,43
8.	Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each)	18						55	
	(a). Basic	(1.50)	(2.88)	(0.62)	6.45	(1.66)	(6.51)	(0.59)	2.75
	(b). Diluted	(1.50)	(2.88)	(0.62)	6.45	(1.66)	(6.51)	(0.59)	2.75

Notes:

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 02nd September, 2020.

2. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website.i.e, BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com and on Company' website: www.kernex.in By order of the Board of Directors

> M.B. NARAYANA RAJU Whole-Time Director

For KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LIMITED

DIN - 07993925

of the AGM which is available on Company's website and KFinTech's

the manner specified by the Company in the Notice of AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend

Mr. S.V Raju, Deputy General Manager Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

(from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.) E-mail: evoting@kfintech.com By order of the Board of Directors

पार्टी बैठक के लिए नेताओं को रोका गया: पीडीपी

श्रीनगर, 3 सितंबर (भाषा)

पीडीपी ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को पार्टी के अनेक नेताओं को यहां पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए उनके घरों से नहीं निकलने दिया।

CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN: L26940DL1991PLC044520

Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex,

Azadpur, New Delhi-110033

Phone No.: 011-42142258 E-mail: cmpsec@cclil.com Website: www.evocreteindia.com 29TH ANNUAL GENERAL MEETING OF CCL INTERNATIONAL LIMITED

Members are requested to note that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of CCL International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.30 A.M. through video-conferencing ("VC") to transact the business to be set out in the Notice of the 29th AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA").

Electronic copies of the Notice of 29th AGM, procedure and instruction for e-voting and Annual Report 2019-20 will be sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/ Depositories.

Members who has not registered their email address are requested to register the same in respect of share held in electronic form with the Depositary through Depositary Participant(s) and in respect of share held in physical form by sending email/ writing to the Company's Registrar and Transfer Agents("RTA"), Alankit Assignment Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.

The Notice of the 29th AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at www.evocreteindia.com and at the BSE website The Company will provide the facility to it's members to exercise their right to vote by

electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. The instruction or the process of e-voting, including the manner in which the members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their voting through e-voting will be provided as part of the Notice of the 29th AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM

and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote

For CCL International Limited

Date: 03.09.2020 Place: New Delhi

e-voting and e-voting at the time of AGM.

Pradeep Kumar Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. A50972

इंजीवियर्स ENGINEERS इंडिया लिमिटेड INDIA LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनयर्स इंडिया हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दुरभाषः 011-26762121, फैक्सः 011-26178210 इं—मेलः company.secretary@eil.co.in, वेबसाइटः http://www.engineersindia.com सीआईएन: L74899DL1965GOI004352

> 55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग / रिकॉर्ड तारीख संबंधी सचना

कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 5 मई. 2020 और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र (सामूहिक रूप से "संगत परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत गठित नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की आमंत्रण सूचना में निर्धारित कामकाज को निष्पादित करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को अप. 03:00 बजे **आईएसटी** पर आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनती की जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों सहित वितीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, 3 सितंबर, 2020 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.engineersindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी, बीएसई इंडिया लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा देने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने ("ई-वोटिंग") की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लेख की गई तारीखों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करते हुए अपने वोट डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डाल सकेंगे। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा सुविधा प्रदान वाली एजेंसी के रूप में सीडीएसएल की सेवाएं प्राप्त की हैं।

सदस्यों को ई-वोटिंग से संबंधित लॉगिन क्रेडेंशियल्स के विवरण सहित जानकारी और निर्देश ई-मेल के माध्यम से भेजे गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। डिमैटीरियलाइज्ड मोड भौतिक मोड में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका, एजीएम

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होना : शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को प्रात: 9.30 बजे मा.म.स. रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति : रविवार, 27 सितंबर, 2020 को सायं 5.00 बजे भा.म.स. उपरोक्त तारीख़ और और समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तारीख यानी सोमवार 21 सितंबर, 2020 को डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। ईमेल पते को पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका निम्नानुसार है:

 भौतिक मोड में शेयर धारक सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, से कंपनी के रजिस्टार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के कार्यालय 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से संपर्क करने या virenders@alankit.com को ईमेल भेजने का अनुरोध किया जाता है।

डिमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयरधारक सदस्यों, जिन्होंने अपना ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, से डिपॉजिटरी प्रतिभागियों जिनके पास उनका डीमैट खाता है, के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है।

 कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ की तारीख को शेयर धारित करता है. एजीएम की सचना में बताए गए तरीके.

जो कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, से virenders@alankit.com को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकता है। उचित सत्यापन के बाद, **मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड** उनके लॉगिन क्रेडेंशियल को उनके ईमेल पते पर अग्रेषित करेगा। ऐसे सदस्य कंपनी की एजीएम सूचना में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ई—वोटिंग निर्देशों

का उपयोग करके अपने बोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से एजीएम में अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। शेयरधारक यह भी नोट करें कि कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (रु. 1.55 / – प्रति इक्विटी शेयर), सदस्यों द्वारा 55वीं एजीएम में घोषित किए

जाने पर, की पात्रता के निर्धारण के लिए सोमवार, 14 सितंबर, 2020 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां माला, मैराथन प्रयूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंडस, एनएन जोशी मार्ग, लोअर परेल(ईस्ट)

मुंबई 400013 को संबोधित करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल करें या 022-23058542 / 43 पर कॉल करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

एस.के. पाढी कंपनी सचिव CA\2020-2021\7

ईडायनैमिक्स सॉल्युशन्स लिमिटेड **पंजीकृत कार्यालव : 103**, प्रथम तल प्लॉट नं त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, वीर साधरकर ब्लॉक, शकरपर दिल्ली-110092

র্র মল आর্র্ডী : edynamicssolutions@yahoo.com CIN : L74900DL2000PLC106755 रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी

जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन कथित सुचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.edynamicssolution.com और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कते ईडायनीमेक्स सॉल्युशन्स लिमिटेड विनांक : 03.09.2020 विकास सैनी

Tinna Finex Limited Regd Office No :11 Wood Villa 2nd Avenue. Bandh Road Chandan Haula. New Delhi-110074

CIN:L65910DL1990PLC041750

MOTICE Notice is hereby given that the Tinna Finex Limited, 30th Annual General Meeting will be held at 11, Wood Villa, 2nd Avenue, Bandh Road, Chandan Haula, New Delhi-110074, India on wednesday, 30th, September 2020 at 10:00 AM. to transact the business mentioned in the notice convening the said Annual General Meeting is being posted to the members individually at

their registered addresses A Member entitled to attend and vote entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need

not be a member Notice is hereby given pursuant to section- 91 of the companies act, 2013, that the register of members and the share Transfer books of the Company will remain Closed from 20th September to 28 September 2020 (both days inclusive) For Tinna Finex Limited

Place : Delhi VIJAY SHEKHRI Date: 4th Sep 2020 Director

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय,

के मामले में और श्यारीफन इंडिया लिमटेंड

जेसका पंजीकृत कार्यालय**ः सैलिब्रे शन गार्डन्स**, एनएच-8,गुडगाँव रोड, शिव मूर्ति के पास, **नई दिल्ली** —110037 में रिथत है, के मामले में,

(CIN: U74899DL1995PLC072063)

..... आवेदक आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक 31 अगस्त 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन केंद्र सरकार को आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली— 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर **सैलिब्रेशन गार्डन्स**, एनएच-8,गुडगाँव रोड, शिव मूर्ति के पास, नई दिल्ली —110037 में भी भेज दे।

कते श्योरिफन इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

पम्मी कौर (निदेशक)

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED Regd. Office: C-115, Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi-110015 CIN: U70101DL1992PLC047541 Ph. No.-011-25193268

E-mail: goldedgeestate2016@gmail.com www.goldedgeestate.in NOTICE

NOTICE is hereby given that 28th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, 28th September, 2020 at 05.00 p.m. through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, (the 'Act') MCA circular dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and SEBI circular dated 12 May 2020, to transact the business as set out in the Notice of the meeting.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of the AGM alongwith the Annual Report for Financial Year 2019-20 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants

Manner of registering/updating email addresses:

- i. Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. ii. Shareholders holding share(s) in physical mode are requested to furnish their
- email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (Skyline Financial Services Private Limited, Ph. No. - 011-26812682-83, Email id- admin@skylinerta.com) The Notice of 28th AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also be made

available on the Company's website at www.goldedgeestate.in and website of the stock exchange, i.e., MSEI Limited at https://www.msei.in/ The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its

members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 28th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of 28th AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under section 103 of the Act. For Goldedge Estate and Investments Limited

Jagdish Chand Agarwal

Place: New Delhi Date: 01.09.2020

अजन्ता सोया लिमिटेड

सीआईएन: L15494RJ1992PLC016617

कार्यालयः एसपी-916, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला अलवर, भिवाड़ी-301 019, राजस्थान द्रभाष नं.: 911-6176727, 911-6128880 कॉर्पोरेट कार्यालय : 12वीं मंजिल, बिगजोस टॉवर, ए-८, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट

दूरभाष नं.: 91-11-42515151, फैक्स: 91-11-42515100 वेबसाइटः www.ajantasoya.com, ई-मेल: cs@ajantasoya.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने

एतद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत नियमों अं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 12,30 बजे अप. आयोजित कीजिए। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के

वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम से सम्बन्धित सुचना

प्रासंगिक परिपत्र के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 एवं निदेशकों की रिपोर्ट. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उससे सम्बद्ध अन्य दस्तावेज कम्पनी के उन सभी सदस्यों के पास केवल ई-मेल द्वारा भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की बसाइट और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की रीति

(क) सदस्यों को एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन पर इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली (''ई-वोटिंग'' के माध्यम से अपना मतदान करने का अवसर होगा।

(ख) अभौतिक, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने-ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनके द्वारा रिमोट ढंग से वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') की रीति एजीएम की सचना में प्रावधानित

(ग) एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं किया वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। (घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। (ङ) इन्हीं लॉगिन विवरणों का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए भी किया

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं किया है तो कृपया एजीएम में शामिल होने/ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेत निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें :

(क) भौतिक धारिता : कृपया अपने फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन प्रति कम्पनी के ई-मेल पते cs@ajantasoya.com अथवा स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.-कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट (आरटीए) के पास compliances@.skylinerta.com पर ई-मेल द्वारा भेजें। (ख) डीमैट धारिता) कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और अपने डीपी द्वारा निर्देशित वे अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें।

सदस्यों से एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी नोट्स तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की रीति ध्यानपूर्वक पढ़ने का निवेदन किया

कृते अजन्ता सोया लिमिटेड

तिथि: 03.09.2020

स्थानः नई दिल्ली कपिल कम्पनी सचिव

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED

Regd. Office: R-4, Unit 103, First Floor, Khirki Extention Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017 CIN: L74899DL1993PLC055768 | info@alchemist-corp.com | 011-29544474 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice be and is hereby given that the 27" Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Tuesday, September 29, 2020 at 11.30 A.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars"), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 will be sent only by email to all the members of the Company. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.alchemist-corp.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com)

In compliance with Section 108 of The Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility of remote e-voting to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL").

The remote e-voting facility shall commence on Saturday the 26th September 2020 from 9.00 a.m. (IST) and end on Monday the 28th September 2020 at 5.00 p.m. (IST). Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast their e-vote during AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut Off Date i.e. 22nd September 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /e-voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and hold shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote evoting by sending a request at

evoting@nsdl.co.in. The detailed instructions for remote e-voting are provided in the Notice of AGM.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, the September 29, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

email address / contact number in the following manner: In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company at info@alchemist-corp.com along

scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number. Share certificate number, complete address, email address and mobile number, and

To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2019-20, the members are requested to register/ update their

scanned copy of self-attested PAN card. Further, shareholder may also visit the website www.skylinerta.com and update their email ID/ contact number thereof. In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email addresses with their relevant Depository Participant.

The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.alchemist-corp.com and on the website of RTA at www.skylinerta.com. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members

In case of any query/grievance pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section of www.skylinerta.com or contact our RTA, M/s Skyline Financial Services Private Limited D-153/A, 1st Floor Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi-110020, Contact No. 011-40450193-97, 011-26812682-83.

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

> By order of the Board For Alchemist Corporation Limited **Amol Mathur** (Company Secretary)

Place: New Delhi

भरोसे का प्रतीक !

पंजाब नैशनल बैंक

Date: : 31.08.2020

किट्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतू एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 01, सितम्बर, 2020 को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बँक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभत आस्तियों को छड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

ऋणकर्ता व गारंटर का प्राधिकत अधिकारी (13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग खाते का नाम भौतिक कब्जे बंधक सम्पत्ति का विवरण नाम और पता नोटिस के अनुसार बकावा राशि की तिथि स0 का नाम एवं सं0 का नाम राहल जैन और ज्ञान चंद्र मकान क्षेत्रफल 67 वर्गगज (56.02 वर्ग मीटर सेल डीड कम सं 1. बिनौली राहुल जैन एस. के गोयल 12.05.2016 01.09.2020 (बागपत) और ज्ञानचंद एमपीएल नं. /7/322 6825 पेज 225 / 246, जिल्द 3560 दिनांक 19.06.2012) स्थित 8171557292 सांकेतिक कब्जे NC & OD NC 679600NC नेहरू रोड, गुराना रोड, सं. 7 / 322 नेहरू रोड, गुराना रोड, बडौत, बागपत। की तिथि ₹ 998665.00 00000034 और बडौत, बागपत सीमायें:- उत्तरः जयवीर सिंह का मकान, पश्चिमः 11.06 28.05.2018 ⊦व्याज व अन्य खर्चे 67960099000 रोड / नहर, पूर्वः महेन्द्र का मकान, दक्षिणः सोहनवीर का मकान 00028 प्राधिकृत अधिकारी दिनाक:- 03.09.2020 स्थान:- मेरठ



पॉल मर्चेन्ट्स लि. (आईएमओ 0001-2015 प्रमाणित कः) (CIN: L74900DL1984PLC018679)

कॉर्पो. कार्या.: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगड़-160022 फोन: 0172-5041788, फैक्स: 0172-5041709, ई-मेल: info@paulmerchants.net, चेबसाइट: www.paulmerchants.net पंजीकृत कार्याः डीएसएम ३३५, ३३६, ३३७, ३४ तल, डीएलएफ टायर, १५, शियाजी मार्ग,

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक, इ-वोटिंग तथा किताब बंदी की सूचना

नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-48702000

<mark>ल</mark>दहारा सचना दी जाती है कि मैसर्स पॉल मचेंट्स लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) एजीएम सचना में निर्धारित बनुसार व्यापार को पुरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से मंगलवार, 29 पतंबर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे पर आयोजित की जाएगी। कंपनी ने अनुमत विधि द्वारा 02.09,2020 को एजीएम की सुचना भेजने का कार्य रा कर लिया है। यह वार्षिक सामान्य बैठक कॉपोरेंट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न 14/2020 दिनांक 08.04.2020. सामान्य परिपन्न 7/2020 दिनांक 13.04.2020, सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 05.05.2020 और सेबी द्वारा जारी सेबी परिपत्र संख्या EBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन <mark>र्वे</mark> वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से बुलाई गई है। नोटिस में तय किए गए आगामी एजीएम परा किए जाने वाले विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

<mark>क</mark>ंपनीत (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय समय पर संशोधित, के नियम 20 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्रियाँ सचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों. 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों की नुपालना में सदस्यों को एतदहारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि हारा 36वीं एजीएम पर वोट के अधिकार हा प्रयोग करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और व्यापार सेंटल डिपॉनिटरी सुविसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इ-वोटिय <mark>स</mark>विधा के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।

-योटिंग के लिए निर्देश एजीएम सुचना में दिए गए है। सदस्यों से निम्नलिखित नोट करने का अनुरोध है:

- रिमोट इ-योटिंग शुक्रवार, 26 सितंबर, 2020 को प्रातः 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को सायः 5.00 (आइएसटी) बंद होगी। इ-वोटिंग मॉहवृल को कथित तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा असक्षम कर दिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट इ-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी
- ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी की भगतान इक्विटी शेयर पंजी के उनके शेयर के अनुपात में कर सकेंगे। कट-ऑफ तिथि (कार्यालय समय के समापन) को सदस्य को केवल रिमोट इ-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के हकदारी में शामिल किया जाएगा और वह एजीएम मे तपस्थित हो सकता है। कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि को

सदस्यों को वोटिंग अधिकार (इ-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में या रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग) मंगलवार, 22 सितंबर, 2020

शेयरधारक है वह कंपनी के आरटीए मैं. अलंकित असाइनमेंट्स लि., 1-इ/13, इंडिवाला एक्स्ट., नई दिल्ली-110055 (भारत) फोन नं. 011-42541959 या सीडीएसएल को अनुरोध भेजने द्वारा लॉग इन आइडी व अनुक्रम सं. प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि कथित शेयरधारक इ-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकत हैं तब वह वोट डालने के लिए वर्तमान वजर आइडी व पासवर्ड प्रयोग कर सकता है। यदि वह पासवर्ड भूल गया है, वह www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" के प्रयोग द्वारा पासवर्ड रिसेट कर सकता है।

रिमोट इ-वोटिंग सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट इ-वोटिंग द्वारा अपने वोट का पहले प्रयोग नहीं किया है वह एजीएस के दौरान अपनी सहमति या असहमति पर वोट के अधिकार का प्रयोग करने के सक्षम होंगें सदस्य रिमोट इ-वोटिंग के माध्यम से वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट के प्रयोग के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

36वीं एजीएम की सुचना से युक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया है और वैबलिक

tp://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2020/09/Annual-Report-2020.pdf के अंतर्गत

<mark>क</mark>ंपनी की वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 36वी एजीएम की सुचना सीडीएसएल ईवोटिंग की वैबसाइट https://www.evotingin-

sia.com तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है। कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम के दौरान ईवोटिंग और रिमोट इ-वोटिंग प्रक्रिया को आयोजित करने के ९ए छंटनीकार के तौर पर श्री कंवलजीत सिंह थाणेवाल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या) एफसीएस नं. 5901 तथा सीपी नं. 5870) रससीओ 64-65, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ को नियुक्त किया है।

एजीएम में रिमोट इ-वोटिंग तथा इ-वोटिंग का परिणाम बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को अपराहन 2.00 बने कंपनी के सर्वुक्त कार्यालय एससीओ <mark>12</mark>9-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 में घोषित किया जाएगा। समेकित छंटनीकार की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत परिणाम घोषित करने के बाद कंपनी की वैबसाइट (www.paulmerchants.net) और सीडीएसएल की वैबसाइट (https://www.evotingindia.com) <mark>पर</mark> डाले जाएंगे और उसके साथ बीएसई लि. जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, भेजे जाएंगे। प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में डाले गए वोट की <mark>संख्</mark>या के साथ वोटिंग का परिणाम, अवैध वोट तथा प्रस्ताव निष्पादित किया या नहीं किया गया, कंपनी के नोटिस बोर्ड स्थित पंजीकृत कार्यालय <mark>नई</mark> दिल्ली और संयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

एकीएम उपस्थिति और इ-वोटिंग प्रणाली से संबंधित किसी पुछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आक्स्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्व्") तथा ww.evotingindia.co.in पर हैल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध इ-वोटिंग मेन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com प <mark>म</mark>िल करें या श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543)या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से <mark>सं</mark>पर्क करें। ई-वोटिंग से संबंधित किसी समस्या की स्थिति में श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, माफतलाल मिल कंपाऊड्स, एनएम जोशी मार्ग, लॉक्स परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013, इ-मेलvelpdesk.evoting@cdslindia.com या फोन 022-23058542/43 पर संपर्क करें। आप श्री हरदम सिंह, कंपनी सचिव तथा अनुपालन <mark>अ</mark>धिकारी, पीएमएल हाउस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, पर या टेलीफोन नं. 0172-5041760, या फैक्स नं. 0172-041713 या इमेल investor.redressal@paulmerchants.net पर संपर्क कर सकते हैं।

आगामी तौर पर सचना दी जाती है कि कंपनीज एक्ट, 2013 तथा यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 91 और सेबी (एलओहीआर) र्वनियमों 2015 के विनियम 42 के अनुवर्ती कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 36वीं वर्षिक सामान्य बैठक के देश्य के लिए 15,09,2020 से 21.09,2020 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड हस्ता./- हरदम सिंह, कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, एफसीएस 5046

अंसल बिल्डवेल लि.

निधि: 03 सितंबर, 2020

स्थानः चंडीगढ





CIN No.: L45201DL1983PLCO17225 पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359550, इमेल : info@ansalabl.com वेयसाइट : www.ansalabl.com

36वीं वार्षिक आमसभा की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तक बन्द होने की सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आमसभा ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी / ओएवीएम के माध्यम से की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपन्नों संख्या न0 20/2020,14/2020,17/2020 एवं (सेबी') द्वारा जारी परिपन्न संख्या न0 SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P02020/79 के हवाले से कपंनी की वार्षिक आमसभा बैठक का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बिना शारीरिक उपस्थिति, एवं आम स्थल पर आयोजित करने की अनुमति दी हैं। अत: कंपनी की 36 वीं वार्षिक आमसभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 29 जून 2020 की सूचना के अनुसार सामान्य एवं विशेष निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन का निष्पादन किया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020 जिनमें आम सभा की सूचना,व्यवसायों के सामान्य और विशेष प्रस्तावों के निष्पादन का उल्लेख किया हैं तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तिय वर्ष के कंपनी के लेन देन का अंकेक्षित वित्तिय विवरण (समेकित व स्टैंडलोन विवरण सहित) लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट सहित उन सभी शेयरधारकों को जिनकी ई--मेल आईडी एवं पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) एवं मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0 (आरएण्डटीए) के पास पंजीकृत है इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई हैं। तथा जिन सदस्यों के ई–मेल आईडी एवं पते मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0 या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजिकत नहीं है,उन सभी को अनुमत मध्यम में भौतिक विधि से भेजी गई हैं। बैठक की सूचना एवं उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि को कंपनी की वेबसाइट जो कि www.ansalabl.com एवं मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्राo) लिo https://instavote.linkintime.co.in पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है। इन दस्तावेजों को व्यवसायिक घंटो के दौरान (शनिवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोडकर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर भी निरिक्षण कर सकते है। कोई भी सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि रखना चाहता है और उसे प्राप्त नही हुई है वह कंपनी को लिख सकता है उसे यह दी जाएगी। वार्षिक आमसभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 3 सितम्बर 2020 को पूर्ण कर दिया

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") के नियम 10 और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी विनियम") के विनियम 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहिया बृहस्पतिवार,24 सितम्बर, 2020 से बुधवार,

30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी। सेबी विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") कम्पनी नियमावली के नियम 20 के अनुपालन में, कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक आमसमा की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट आरएण्डटीए (मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0) द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई—वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई—वोटिंग अवधि रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत आरएण्डटीए द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इस हस्तक्षेप अवधि के दौरान, विच्छेदन तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में शेयरधारक कम्पनी के सदस्यों को ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से रिमोट ई-वोटिंग अथवा उक्त वार्षिक आमसभा में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मोड्यूल वोटिंग द्वारा देने का अधिकार होगा। ई-वोटिंग की प्रक्रिया

का वर्णन वार्षिक आमसभा की सूचना में किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी वार्षिक आमसभा में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु उनको पुनः वोट देने का अधिकार नहीं होगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक बार वोट डालने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा https://instavote.linkintime.co.in लिंक पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि रिमोट ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों के लिए वार्षिक आमसभा सूधना का रिमोट ई-वोटिंग भाग देखें। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी समस्या अथवा प्रश्न की रिथति में, कृपया https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्अल देखें।

ई-वोटिंग के लिए आरएण्डटीए के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य, अपनी मौजूदा लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग ई--वोटिंग के लिए कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हैं तथा कम्पनी के सदस्य बने हैं तथा विच्छेदन तिथि को कम्पनी के शेयरधारक हैं; लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए https://instavote.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें। लॉगइन आईडीतथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आमसभा की सूचना में भी मुहैया कराई गई है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्यगण ई-वोटिंग के संबंध में किसी जिज्ञासा / शिकायत के लिए आरएण्डटीए ई-वोटिंग हेल्पडेस्क से https://instavote.linkintime.co.in अथवा श्री स्वपन नासकार, एवीपी (नॉर्थ इंडिया आपरेशन) से 022-491860000 (पता : मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, एन एच -2 सी1 ब्लॉक एलएससी,नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नयी दिल्ली 110058 पर संपर्क कर सकते है। श्री सुरिन्दर किशोर कपाही, प्रेत्टाईजिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 1407 तथा सीपी सं. 1118), नई दिल्ली को रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आमसभा में कि गयी ई-वोटिंग के निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीबद्ध नहीं कराई है अथवा जो अपनी ई-मेल आईडी में परिवर्तन करना चाहते

सभी संदेश प्राप्त हो सकें। सदस्यों का ध्यान सिक्योरिटिज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के सर्कुलससेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / डीओपी1 / सीआईआर / पी / 2018 / 73 दिनांक 20.04.2018 की ओर दिया जाता है, जिनके अनुसार भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को हिदायात दी जाती है कि जिनके फोलियों (स) के पास उनके पैन एवं बैंक खातों से संबन्धित पूरा रिकार्ड नहीं है, या पहले प्रदान किए गए खातों में कोई परिवर्तन है उसे आरटीए / कंपनी के पास पंजीकृत / नवीनीकरण करना अनिवार्य है। सदस्यों का ध्यान सेबी विनियमों के विनिमय 40 के संशोधन की ओर आर्कषित किया जाता है और जिसके अनुसार विधि द्वारा हस्तांतरण और नामों के ऊपर नीचे को छोडकर भौतिक प्रतिभृतियों का हस्तांतरण नही किया जायेगा जब तक की वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से (डीपीज) के रिकार्ड में न हों। इसीलिए सभी सदस्यों जिन्होंने भौतिक रूप से प्रतिभृतियां रख रखी है सुझाव दिया जाता है

हैं, उनसे उनके संबंधित डीपी'ज से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई—मेल आईडी अपने

डीपी / आरएण्डटीए के पास वैधीकृत रखें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, सर्कुलर्स इत्यादि सहित कम्पनी द्वारा समय समय पर प्रेषित

अंसल बिल्डवेल लि. के लिए हस्ता./-

BUILOWELL

कि वे उन्हें इलेक्टॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03.09.2020

(अशोक बाबू) वरिष्ठ वी.पी. एवं कम्पनी सचिव FCS No.: 2328

www.readwhere.com

recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 03.09.2020 "IMPORTANT"

its contents. The Indian